

Time Allowed : Three Hours  
समय : तीन घंटे**ForumIAS**Maximum Marks : 250  
अधिकतम अंक : 250**GENERAL STUDIES / सामान्य अध्ययन**

Name Of Candidate परीक्षार्थी का नाम	RUHANI		
Roll No./अनुक्रमांक	1910059018	Medium/माध्यम	English <input checked="" type="checkbox"/> हिंदी <input type="checkbox"/>
Center Code/परीक्षा केंद्र		Date/दिनांक	26.08.2022


\*Center Code : For Online - 1900 / Delhi : Karol bagh - 1901, ORN - 1902, Mukharji Nagar - 1903 / Patna : Boring Rd. - 2001 / Hyderabad : Jawahar Nagar - 2101

INDEX TABLE / अनुक्रमणिका			INSTRUCTION / अनुदेश		
Q. No. प्र.सं.	Max. Marks अधिकतम अंक	Marks Obtained प्राप्तांक	1. Please do furnish Name, Email, Roll No and Mobile in the answer sheet. कृपया उत्तर-पुस्तिका में नाम, ईमेल, रोल नंबर और मोबाइल नंबर भरें।		
1			2. There are TWELVE questions printed in ENGLISH & HINDI, all questions are compulsory. उत्तर पुस्तिका में अंग्रेजी/हिंदी में बारह प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।		
2			3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए निर्धारित अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं।		
3			4. Answers must be written in the medium authorized in the admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. उत्तर प्रदेश पत्र में अधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जो कि दिए गए स्थान में इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के कवर पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।		
4			5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum Answer Booklet must be clearly Struck off. प्रश्नों में शब्द सीमा, यदि निर्दिष्ट हो, का पालन किया जाए। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गये किसी भी पृष्ठ या पृष्ठ के भाग को स्पष्ट रूप से काट दें।		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Total/कुल अंक	250		<b>For Student Only / केवल परीक्षार्थी प्रयोग हेतु</b>		
Evaluator's Discretion/मूल्यांकन कर्ता का विवेक :			Start Time/प्रारंभ करने का समय :	End Time/समाप्त करने का समय :	
			4:00 PM	7:00 PM	
Total Marks/कुल अंक :			Mode Of Examination/ परीक्षा की विधि :	Online/ऑनलाइन <input checked="" type="checkbox"/>	
				Offline/ऑफलाइन <input type="checkbox"/>	
*Evaluator's Discretion is the marks awarded at the discretion of the evaluator based on your overall impression, on the basis of (but not limited to) your handwriting, presentation, use of diagrams, flowcharts, facts and figures or absolutely anything that he/she liked in your copy. मूल्यांकन कर्ता का विवेक अंक, आपकी लिखावट, प्रस्तुति, आरेखों के उपयोग, फ्लोचार्ट, तथ्यों और आंकड़ों या समग्र रूप किसी अन्य विषय वस्तु, जो मूल्यांकन कर्ता को आपकी कॉपी में पसंद आयी के आधार पर (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) पर दिए गए अंक हैं।			<b>For Office Use Only / केवल कार्यालय प्रयोग हेतु</b>		
			ECN CODE/ ईसीएन कोड :	EG/ईजी :	Evaluation Date/ मूल्यांकन तिथि :

**Note:** You can discuss your evaluated copy with the Mentor. Raise a ticket from your portal to schedule a mentor call or visit the offline centre to meet mentor (all 7 days, Timings – 11 AM to 6 PM). Further if you are unsatisfied with the evaluation, you can seek re-evaluation of the copy.

Parameters	Excellent	Very Good	Good	Average	Poor	Very Poor
Language						
Structure						
Presentation						
Handwriting						
Content						
Attempt						

**ADDITIONAL REMARKS**



## Section - A

Q.1) a) Successful people are not those who did not fail, but those who persisted in turbulent times and kept moving after a failure. In light of this statement, examine the importance of adversity quotient in life. How can adversity quotient be developed? (10 marks, 150 words)

सफल लोग वे नहीं होते जो असफल नहीं हुए, बल्कि वे हैं जो कठिन समय में डटे रहे और असफलता के बाद आगे बढ़ते रहे। इस कथन के आलोक में जीवन में प्रतिकूलता गुणक के महत्व का परीक्षण कीजिए। प्रतिकूलता गुणक कैसे विकसित किया जा सकता है? (10 अंक, 150 शब्द)


Every successful person was once a failure. But immense will power is needed to overcome the failure and try again. As Winston Churchill said - "Success means going from one failure to another without loss of enthusiasm".

Eg:- Arunima Sinha broke her leg after falling from the train. Despite her adverse condition, she became the world's first amputee woman to climb Mt. Everest. This was because her adversity quotient was high.

### IMPORTANCE OF ADVERSITY QUOTIENT

→ Adversity Quotient is the ability to bounce back despite repeated failures.

→ Eg:- Robert Bruce saw a spider falling and then rising up again. This inspired the king to bounce back in war.



## WAYS OF DEVELOPING ADVERSITY QUOTIENT

- Keeping engaged in Competitive tasks or exams  
:- Even if we don't win or clear, we still learn a lot from competition
- Drawing Inspiration from role models
- Continuous improvement
- Honing our strengths, working on weaknesses
- Hard work :- As Thomas Edison said -  
"Success is 1% inspiration, 99% perspiration"

All these steps can help us strengthen our adversity quotient so that we succeed one day despite past failures.

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

b) 'Strength does not come from physical capacity but from an indomitable will.' – Gandhi. What does strength mean to you and how far do you agree with the given statement? Discuss with suitable example. (10 marks, 150 words)

"शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।" – गांधी। आपके लिए शक्ति का क्या अर्थ है और आप दिए गए कथन से कहाँ तक सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।

(10 अंक, 150 शब्द)

Gandhiji has described the sources of strength in the statement. Strength can come from 2 sources

```

graph TD
    A[Strength can come from 2 sources] --> B[Physical Capacity]
    A --> C[Mental Capacity (will power)]
    
```

To me, strength is the capacity to ethically complete a task for personal or socio-economic well-being.

For example :- Showing strength to fight against enemy in a war is an application of physical strength which keeps a nation safe and secure.

However, when a man shows his strength by committing domestic violence on woman, it is a reflection of weakness, not strength.

Hence, any action which leads to a good outcome using right means is a show of strength.

Will power is an essential component of Strength.

Eg:- Ukrainians have shown immense will power in defending their country.

Even though their physical capacity is of no match to Russia, yet they have yet ~~at~~ not allowed Russia to invade their country.

Will power is also what should motivate a civil servant to work for public welfare. Example:-

Although Shri Armstrong Pame did not have sufficient physical capacity or resources to build a road for people of Manipur, yet he collected money through crowdfunding and got a road built due to immense will power.

Thus, will power determines our strength. Will power alone can turn other factors and events in our favour.

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

Q.2) a) Differentiate between the following:

(10 marks, 150 words)

- i) Conscientiousness Vs. Conscience
- ii) Guilt Vs. Remorse

निम्नलिखित के बीच अंतर करें :

(10 अंक, 150 शब्द)

- i) कर्तव्यनिष्ठा बनाम अंतरात्मा की आवाज
- ii) अपराध बनाम पश्चाताप

i) Conscientiousness is a sense of responsibility or duty shown by a person towards his job, family or spiritual commitments.

Eg:- Coming to office on time is conscientiousness towards job.

Giving time to family members is our duty towards family which gives us peace and immense satisfaction.

Conscience is our inner voice which tells us what is right or wrong.

Eg:- When Chauri Chaura Incident happened, Mahatma Gandhi called off Non-cooperation Movement as ~~too~~ non-violence principles did not permit his conscience to carry on with the movement.

Thus, our conscience directs us to not only perform a job, but also guides us to perform the job rightly in an ethical manner.

ii) Guilt is a feeling that one experiences after committing a mistake.

Eg:- Not being able to finish the task in time can make one feel guilty.

OR Eating a pizza despite being over-weight can cause a feeling of guilt.

Remorse refers to taking action to rectify one's mistake.

It means to atone for one's sin.

For eg:- Staying up late at night to finish the assignment which got delayed because of you, is remorse.

A criminal guilty of beating his wife, can apologize and promise not to repeat the action again, is remorse.

Thus, when a guilty person expressed regret and vows to atone for his sins, that phenomenon is called remorse.

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total







b) Good governance does not depend on laws, but upon the personal qualities of those who administer the law. Do you agree with this statement? Justify your view. (10 marks, 150 words)

सुशासन कानूनों पर नहीं, बल्कि कानून का संचालन करने वालों के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार का औचित्य सिद्ध कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

A law is as good as the person implementing it.

Good governance depends both on the law as well as the personal quality of person administering the law.





A law might contain many rigid rules. It is the duty of the administrator to implement the law both in letter and spirit, regardless of his own bias, preferences or views.

Eg:- Farm laws were opposed by many but administrators implemented them.

However, after knowing the public view, the laws were rolled back.

Thus, there should be scope of improvement in law.

A good law can become bad if the person implementing it is bad, dishonest and lacks integrity.

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

Q.3) a) An active civil service is necessary but not sufficient; India also requires civil service activism for fulfilling the vision of 'justice, liberty and equality for all'. Analyze the statement citing relevant examples. (10 marks, 150 words)

एक सक्रिय सिविल सेवा आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है; भारत को 'सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और सभी के लिए समानता' की दृष्टि को पूरा करने के लिए सिविल सेवा सक्रियता की भी आवश्यकता है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए कथन का विश्लेषण करें। (10 अंक, 150 शब्द)

In a country like India where 70% of population still lives in rural areas, 25% of population is still poor and there is gaping inequality between the 'haves' and 'have-nots', an active civil service is necessary.

## IMPORTANCE OF ACTIVE CIVIL SERVICE

- to ensure Social Justice
- for fair allocation and redistribution of goods and services
- for effective grievance redressal
- to ensure participatory democracy so that voices of the poor and weaker sections is heard
- to eliminate malnutrition, diseases and illiteracy.

## NEED OF ACTIVISM IN CIVIL SERVICES :-

### ARGUMENTS IN FAVOUR :-

- Civil servants need to go beyond the call of their duty.
- Eg:- If funds are not available from Centre Civil servant must arrange funds from NGOs or through crowdsourcing via social media just like Shri Armstrong Pame did.
- Raise voice against rich and powerful  
Eg:- Ashok Khemka exposed the land grab scam by DLF and Robert Vadra in Haryana.

### ARGUMENTS AGAINST :-

- Raising voice in media dilutes anonymity
- Activism can lead to victimisation of civil servants
- Transfer or suspension.
- Death can also happen. Eg:- Satyendra Dubey.
- Can go against Code of Conduct

Thus, civil servants must be active but must show activism in accordance with Code of Conduct to fulfill vision of justice, liberty and equality for all.

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

b) Educational institutions complement the role of the family and the society in shaping our values. Discuss. Can digital education perform this value inculcation function effectively?  
(10 marks, 150 words)

शैक्षिक संस्थान हमारे मूल्यों को आकार देने में परिवार और समाज की भूमिका के पूरक हैं। चर्चा करें। क्या डिजिटल शिक्षा इस मूल्य समावेशन कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकती है? (10 अंक, 150 शब्द)

Educational institutions build on the values and teachings that a child acquires from his family like love, peace, humility, sharing and caring about others.

A society also imparts several values in a person related to gender equality, caste equality, religious tolerance.

They reinforce the positive values of a person. Eg:- Love and tolerance

ROLE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

They add new values like:

- Scientific temper
- respecting environment.

They reject the archaic values like

- gender discrimination
- caste discrimination

## ROLE OF DIGITAL EDUCATION IN

### VALUE INCULCATION :-

#### PROS:-

- Digital education can complement what is taught physically in schools
- These values can be recorded digitally
- Can be accessed anytime
- Serve as reminder for students as well as parents.

#### CONS:-

- Impact of digital learning is less than physical learning
  - Activity-based learning or 'learning by doing' happens better in physical classrooms.
  - Due to Lack of human interface, students find it difficult to implement the values learnt.
  - Not all can access digital sources of learning
- Thus, digital education can enhance values but it should be tempered with many activities and should be accessible to all.

#### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

Q.4) a) Gendered attitudes convert differences in sexes into discriminations. Examine the factors responsible for negative attitudes toward women in the Indian society. How can these attitudes be changed? (10 marks, 150 words)

लैंगिक दृष्टिकोण लैंगिक अंतर को भेदभाव में परिवर्तित करते हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। इन दृष्टिकोणों को कैसे बदला जा सकता है? (10 अंक, 150 शब्द)

Dr. B.R. Ambedkar said -

"I measure the progress of a nation by how well a nation treats its women."

Differences in sex (biological) leads to differences in social attitudes or gender. However, this leads to discrimination experienced by women and transgender.

## FACTORS RESPONSIBLE FOR NEGATIVE ATTITUDES TOWARDS WOMEN:

- HISTORICAL FACTORS :- Manusmriti imparted that a ~~the~~ woman's life is shaped by authority of her father in childhood, her husband in youth and son in old age. Hence, others exercise authority over women but never the women herself.
- PATRIARCHY that men are superior and will be breadwinners. Women should only be caretakers.

- POLITICAL FACTORS :- Only 11% of MPs in 17th Lok Sabha are women
- Women are considered a burden due to dowry, fear of safety, hence parents want to invest less on women.
- Women don't assert, they are taught to be docile, hence any woman fighting for rights is seen with negative attitude.  
Eg:- Billis Bano, Mahua Moitra

## CHANGING ATTITUDES :-

- Showing that women can be breadwinners
- Demonstrate role models  
Eg:- Mrs. Nirmala Sitharam is Finance Minister,  
Ms. Indra Nooyi, Kiran Mazumdar Shaw - successful business women who broke the glass ceiling
- Beti Bachao, Beti Padhao
- Selfie with daughter campaign on social media
- #Me Too Campaign (against sexual harassment)

These steps can bring a favourable and respectful attitude towards women.

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure / Presentation

Question Interpretation

Content

Value Addition

Total



b) How are ethical concerns and work culture of public institutions different from those of private institutions? Examine the desirability of adoption of work culture similar to private institutions in public institutions. (10 marks, 150 words)

सार्वजनिक संस्थानों के नैतिक सरोकार और कार्य संस्कृति निजी संस्थानों से कैसे भिन्न हैं? सार्वजनिक संस्थानों में निजी संस्थानों के समान कार्य संस्कृति को अपनाने की वांछनीयता का परीक्षण करें।

(10 अंक, 150 शब्द)

Work culture refers to a set of norms and principles followed by all employees in a workplace.

### WORK CULTURE IN PUBLIC INSTITUTIONS :-

- Requires reporting to office everyday
- Biometric attendance
- Regularity and discipline is the norm
- Strict hierarchy
- Files move through proper hierarchy.
- Civilised formal dresses allowed only.
- Gender equality

### ETHICAL CONCERNS :-

- Favouritism in appointing contractual staff (Merit can get compromised)
- Nepotism in awarding contracts to private firms (Corruption)
- Rigid rules and hierarchy prevent subordinates from approaching their seniors
- Lack of flexibility, no work from home due to which talented, ethical people ~~do not~~ are reluctant to work for government

## WORK CULTURE IN PRIVATE INSTITUTIONS

- Work from Home Allowed
- More flexibility
- No dress code
- Open spaces - free and frank sharing of ideas
- More technical skills are taught
- Business trips are frequent

### CONCERNS:

- Nepotism in appointments
- Lack of transparency in audits
- Conflict of interest
- ~~At~~ Rat race in scouring promotions

## DESIRABILITY OF ADOPTION OF PRIVATE WORK CULTURE IN PUBLIC INSTITUTIONS

### ADVANTAGES

- more flexibility
- open spaces
- Skills will become more technical and professional
- Flattening of hierarchies

### DISADVANTAGES

- Employees may become irregular, hampering effectiveness and efficiency
- Diluting hierarchy may lead to poor discipline among subordinates

Thus, we need to pick the good elements of private work culture to make public offices more vibrant and competent.

### Feedback


(For OFFICE use only)

Structure/ Presentation
Question Interpretation
Content
Value Addition
Total



Q.5) a) Besides objectivity, civil servants also need empathy and compassion to effectively resolve various ethical dilemmas they face while discharging their responsibilities. Discuss with suitable examples. (10 marks, 150 words)

निष्पक्षता के अलावा, सिविल सेवकों को भी सहानुभूति और करुणा की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय विभिन्न नैतिक दुविधाओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)



**Feedback**

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition


Total



b) Leadership is essentially a task of persuasion. How does ability to persuade others help civil servants in performing their duty? Identify five qualities that make civil servants effective agents of persuasion. Justify your choices. (10 marks, 150 words)

नेतृत्व अनिवार्य रूप से अनुनय-विनय का कार्य है। दूसरों को मनाने की क्षमता सिविल सेवकों को अपना कर्तव्य निभाने में कैसे मदद करती है? उन पाँच गुणों की पहचान कीजिए जो सिविल सेवकों को अनुनय-विनय का प्रभावी अभिकर्ता बनाते हैं। अपने विकल्पों का औचित्य सिद्ध करें।

(10 अंक, 150 शब्द)



**Feedback**


(For OFFICE use only)

Structure/ Presentation
Question Interpretation
Content
Value Addition
Total



Q.6) a) What does each of the following quotations mean to you? Peace is not mere absence of war; it is presence of justice (10 marks, 150 words)

निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण आपके लिए क्या मायने रखता है? शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है यह न्याय की उपस्थिति है। (10 अंक, 150 शब्द)



**Feedback**

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total



b) 'The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.'  
(10 marks, 150 words)

'संसार उन लोगों द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा जो बुराई करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बिना कुछ किए उन्हें देखते हैं।'  
(10 अंक, 150 शब्द)

Evil is described as a situation or action which causes harm to others.

Those who do evil harm the world but those who don't stand up against evil destroy the world.

### IMPORTANCE OF SPEAKING AGAINST EVIL :-

- Social Reforms :- Eg:- Raja Ram Mohan Roy stood up against sati
- Economic Reforms:- Eg:- P.V. Narasimha Roy stood up license raj and brought 1991 reforms
- Political Or Electoral Reforms:-  
Eg:- TN Seltan

## EXAMPLES OF THOSE WHO DID NOT SPEAK:

- Politic :- Anti-defection law does not let MPs speak their mind, thus efficiency of parliament declines
- Dr. Manmohan Singh did not speak up against Congress President which resulted in 2G Scam, Coalgate, high inflation.
- People not speaking in favour of privacy rights (like Snowden did) will never gain privacy.
- People who do not speak for conserving environment (like Greta Thunberg) will face disastrous consequences of global warming
- People who do not speak against Fraud, unjust laws (like PMLA) will lead to shifting of burden of proof on accused.

Thus, we must not do evil but we must act against evil too lest the world should be destroyed

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

c) 'Happiness is a mysterious thing, to be found somewhere between too little and too much.'  
(10 marks, 150 words)

'खुशी एक रहस्यमयी चीज है, जो बहुत कम और बहुत ज्यादा के बीच कहीं पाई जाती है।'  
(10 अंक, 150 शब्द)

Happiness is a golden mean between too little and too much.

Too little can lead to deprivation of food, clothing and other amenities, making survival a problem.

Too much can lead to over-indulgence in one's riches, commodities and can make life miserable.

Eg:- A rich person is always worried about taxes, raids, his social reputation, and hence, never happy.

Happiness is found when:

- One is middle class or lives an austere life even if one is rich.
- One does not chase material possessions
- One does not desire social or media attention
- One eats moderate, neither too much nor too little.
- One is free from poverty, malnutrition, undernutrition

As Mahatma Gandhi said -

"Happiness is when there is consistency between one's thoughts, beliefs, speech and actions", which is only possible when we have neither too less nor too much.

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

## Section - B

**Q.7)** Sunshine electronics is a domestic mobile manufacturer and you are its CEO. Sunshine electronics has made an affordable 5g phone with over 80% domestically sourced components. It has spent a large amount of money for promotion of the phone. General public is excited about the new phone and the company has already received over 1 lakh pre-launch orders from various online shopping portals. The achievement of the company has also received recognition from the highest political level and has been cited as a successful example of Atma-Nirbhar Bharat. The Central Minister of Electronics and Information Technology is the chief guest in the launch event of the new mobile phone.

Just a day before the launch of the new phone, you received a call from the Chief Technology Officer (CTO) of your company. He informs you that the US has banned Huwuu Technologies Pvt. Ltd. from doing business in the USA and a similar ban is expected to be imposed by the EU in the next few days. The ban on Huwuu is based on a report claiming that Huwuu has been working very closely with the Chinese government and there are technical 'backdoors' in the components made by Huwuu that allows it to spy on users of the devices that have these components.

The new phone made by your company also uses a chip manufactured by Huwuu. To fulfil the pre-orders in the shortest possible time, Sunshine Electronics has also manufactured around fifty thousand devices. Cancelling or postponing the launch event would be embarrassing for political dispensation and financially disastrous for your company. On the other hand, going ahead with the launch would mean potentially risking the privacy and security of your customers.

- 1) On the basis of this case, identify the various ethical dilemmas involved.
- 2) What principles of corporate ethics would you consider while taking the decision in this case?
- 3) Examine various options available with you for handling the issue at hand. What will you do in the given case?

(20 marks, 250 words)

सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एक घरेलू मोबाइल निर्माता है और आप इसके सीईओ हैं। सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स ने 80 प्रतिशत से अधिक घरेलू घटकों के साथ एक किफायती 5G फोन बनाया है। इसने फोन के प्रमोशन के लिए बड़ी रकम खर्च की है। आम जनता नए फोन को लेकर उत्साहित है और कंपनी को पहले ही विभिन्न ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स से 1 लाख से अधिक प्री-लॉन्च ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी की उपलब्धि को उच्चतम राजनीतिक स्तर से भी पहचान मिली है और इसे आत्म-निर्भर भारत के सफल उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नए मोबाइल फोन के लॉन्च इवेंट में मुख्य अतिथि हैं।

नए फोन के लॉन्च से ठीक एक दिन पहले, आपको अपनी कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) का फोन आया। वह आपको सूचित करता है कि अमेरिका ने Huwuu टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिमिटेड को संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार करने से और अगले कुछ दिनों में यूरोपीय संघ द्वारा इसी तरह का प्रतिबंध लगाए जाने की उम्मीद है। Huwuu पर प्रतिबंध एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें दावा किया गया है कि Huwuu चीनी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और Huwuu द्वारा बनाए गए घटकों में तकनीकी 'बैकडोर' हैं जो इसे उन उपकरणों के उपयोगकर्ताओं की जासूसी करने की अनुमति देता है जिनमें ये घटक हैं।

आपकी कंपनी द्वारा बनाया गया नया फोन भी Huwuu द्वारा निर्मित एक चिप का उपयोग करता है। प्री-ऑर्डर को कम से कम समय में पूरा करने के लिए सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगभग पचास हजार उपकरणों का निर्माण भी किया है। लॉन्च इवेंट को रद्द करना या स्थगित करना राजनीतिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक होगा और आपकी कंपनी के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा।

दूसरी ओर, लॉन्च के साथ आगे बढ़ने का मतलब संभावित रूप से आपके ग्राहकों की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरे में डालना होगा।

- 1) इस मामले के आधार पर, इसमें शामिल विभिन्न नैतिक दुविधाओं की पहचान करें।
- 2) इस मामले में निर्णय लेते समय आप कॉर्पोरेट नैतिकता के किन सिद्धांतों पर विचार करेंगे?
- 3) समस्या से निपटने के लिए आपके पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच करें। दिए गए मामले में आप क्या करेंगे?

This case is about a company manufacturing phones using chips that can compromise with privacy of its customers. (20 अंक, 250 शब्द)

## 1) ETHICAL DILEMMAS involved

- Economic loss vs Privacy of customer  
as ~~phones~~ 50,000 devices have been manufactured with Huaw chips with compromised privacy and security features

- Embarrassment for political dispensation vs Truthfulness

Truth will lead to cancellation of event and cause embarrassment to Minister

- Hiding the information vs Courage  
to accept one's fault or negligence

→ Hiding will result in successful completion of event but not showing courage to accept one's negligence will lead to crisis of conscience.

2) PRINCIPLES OF CORPORATE ETHICS  
~~THE~~ THAT NEED TO BE CONSIDERED :

- Gandhi's Talisman <sup>that</sup> ~~is~~ 'Commerce without morality' is a sin and if my action is not going to help a poor person, I must not do it — will guide my decision-making.
- Dishonesty will eventually be caught in business dealings  
 Eg:- Excessive lead was caught in Maggi noodles
- Kant's Categorical Imperative that we must follow a rule that can universalize an action.  
 → I do not believe that the sale of phones with compromised security features should be universalized.
- Reputation matters more than short-term profits.

## 3) OPTIONS AVAILABLE :

OPTION 1 :- Hide the information that my phone uses Huawei chips

### Pros

- launch event will be successful
- no embarrassment to Minister
- No losses

### Cons

- dishonesty shown
- Breach of public trust.

OPTION 2 :- Reveal the information or truth

### Pros

- ~~Law~~ Honesty, integrity displayed
- Pure conscience
- No guilt
- Privacy and security of customers preserved

### CONS :-

- Minister might rebuke me for negligence
- Economic losses
- Deprive people of 5G phones



My COURSE OF ACTION

ACTION

- Post on social media that we are revoking the phones and cancelling the launch event in light of US ban on Huawei chips, which our phone uses
- Privacy of consumers more important
- Cannot compromise <sup>national</sup> security for short-term profits

JUSTIFICATION

To display our honesty and truthfulness and request for the negligence.

Upholds Article 21.

Fundamental Duty of protecting the integrity of nation upheld.

Thus, we shall remove the chips from our phones and resell them with new chips with better security features.

**Feedback**

(For OFFICE use only)

Structure/ Presentation
Question Interpretation
Content
Value Addition
Total

Q.8) Asanpur is a beautiful small district in Northern part of India. It used to be the hub of stone mining activity. However, excessive mining led to environmental degradation and rapid soil erosion while cutting of stone created air pollution hazard. Due to various detrimental impacts, NGT has imposed a ban on stone mining in Asanpur. Despite this ban, the mining mafia has been able to operate with connivance of corrupt government officials and politicians. Many officers have tried to stop this illegal mining, but the powerful mafia has either forced them to submit through force or bribed them or got them transferred through their political contacts. Last week, a DSP lost his life when he was trying to stop a truck carrying illegally mined stones.

You recently got promoted and made the SP of Asanpur. Upon taking the charge, you quickly realized the gravity of the problem. Illegal mining was run by organized gangs in the district. It was also linked to other crimes in your city ranging from petty crimes like pick pocketing to serious offenses like kidnapping and murders. Illegal mining and related crime have negatively impacted socio-economic development of the district as youth are increasingly getting involved in the illegal activities and businesses are leaving the district due to high crime rates. You created a special task force and started taking stringent actions against the illegal mining in your district. In a short span of a few weeks you seized thirty dumpers carrying illegally mined stones. Public appreciated your stringent actions while the corrupt ecosystem created by illegal miners was rattled.

One day, a junior officer approached you and informed you that he has been receiving threats from the illegal stone miners. He also informs you that others in the task force are also facing problems like someone in the task force is being harassed by reopening an old settled case against him while someone else has received a transfer order to a remote district. This has demotivated the taskforce and reminded them of the connections of illegal miners in the district. The same day, when you reach home, your wife tells you that she got a call from an unknown number threatening her of dire consequences if you do not stop your investigation. You fear that the call was from a member of the organized crime syndicate involved in the illegal mining activity. Your wife is worried about the safety of the family and requests you to be lenient in your work. In this situation, answer the following questions:

- 1) How will you motivate the task force to work with honesty in this adverse condition?
- 2) How would you justify putting your family at risk in line of your duty?
- 3) Identify the various dimensions of the crisis. Based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis. (20 marks, 250 words)

आसनपुर भारत के उत्तरी भाग में एक सुंदर छोटा जिला है। यह पत्थर खनन गतिविधि का केंद्र हुआ करता था। हालांकि, अत्यधिक खनन के कारण पर्यावरण का क्षरण हुआ और तेजी से मिट्टी का कटाव हुआ, जबकि पत्थर खनन से वायु प्रदूषण का खतरा पैदा हुआ। विभिन्न हानिकारक प्रभावों के कारण, एनजीटी ने आसनपुर में पत्थर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बावजूद, खनन माफिया भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से काम करने में सक्षम है। कई अधिकारियों ने इस अवैध खनन को रोकने की कोशिश की है, लेकिन शक्तिशाली माफियाओं ने या तो उन्हें बलपूर्वक शांत होने के लिए मजबूर किया है या उन्हें रिश्वत दी है या अपने राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से उनका तबादला करवा दिया है। पिछले हफ्ते, एक डीएसपी की उस समय मौत हो गई जब वह अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों को ले जा रहे एक ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था।

आप हाल ही में पदोन्नत हुए और आसनपुर के एसपी बने हैं। कार्यभार संभालने के बाद, आपने समस्या की गंभीरता को तुरंत महसूस किया। जिले में संगठित गिरोहों द्वारा अवैध खनन चलाया जा रहा था। यह आपके शहर के अन्य अपराधों से भी जुड़ा था, जिसमें छोटे-मोटे अपराध जैसे जेब काटने से लेकर अपहरण और हत्या जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। अवैध खनन और संबंधित अपराधों ने जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास

को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है क्योंकि युवा तेजी से अवैध गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और उच्च अपराध दर के कारण व्यवसाय जिले को छोड़ रहे हैं। आपने एक विशेष टास्क फोर्स बनाया और अपने जिले में अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। कुछ ही हफ्तों में आपने अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से लदे तीस डंपरों को जब्त कर लिया। जनता ने आपके कड़े कार्यों की सराहना की जबकि अवैध खनिकों द्वारा बनाए गए भ्रष्ट पारिस्थितिकी तंत्र को झटका लगा।

एक दिन, एक कनिष्ठ अधिकारी ने आपसे संपर्क किया और आपको सूचित किया कि उन्हें अवैध पत्थर खनिकों से घमकियां मिल रही हैं। वह आपको यह भी सूचित करता है कि टास्क फोर्स में अन्य लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जैसे टास्क फोर्स में किसी को उसके खिलाफ एक पुराने निपटारे मामले को फिर से खोलकर परेशान किया जा रहा है जबकि किसी और को दूरस्थ जिले में स्थानांतरण का आदेश प्राप्त हुआ है। इसने टास्क फोर्स को निराश कर दिया है और उन्हें जिले में अवैध खनिकों के कनेक्शनों की याद दिला दी है। उसी दिन, जब आप घर पहुँचते हैं, तो आपकी पत्नी आपसे कहती है कि उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें उसने अपनी जाँच बंद न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की घमकी दी है। आपको डर है कि कॉल अवैध खनन गतिविधि में शामिल संगठित अपराध सिंडिकेट के एक सदस्य का था। आपकी पत्नी परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और आपसे अपने काम में नरमी बरतने का अनुरोध करती है। इस स्थिति में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :

- 1) इस विपरीत परिस्थिति में आप टास्क फोर्स को ईमानदारी से काम करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे?
- 2) आप अपने कर्तव्य के क्रम में अपने परिवार को जोखिम में डालने को कैसे उचित ठहराएंगे?
- 3) संकट के विभिन्न आयामों की पहचान करें। अपनी समझ के आधार पर संकट से निपटने के उपाय सुझाएं।

The case is about illegal mining activity and the potential danger it can cause to ~~the~~ family of a public official (20 अंक, 250 शब्द)



## 1) MOTIVATING THE TASK FORCE TO WORK WITH HONESTY

- Integrity and honesty — foundational values of a public servant
- Our fears or favours should not come in the way of honest people
- Environmental Degradation and soil erosion (due to mining) can be curbed with our honest efforts
- No need to fear as NGT order is in our favour
- We need to avenge the death of honest DSP who sacrificed his life for this cause

## 2) JUSTIFICATION FOR PUTTING FAMILY AT RISK IN LINE OF YOUR DUTY

- Kantian deontological ethics will be my guiding light that a public servant must do his duty regardless of the consequences.
- Inaction will create a slippery slope and threaten lives of families of several honest officers

- Virtue of courage needs to be shown both by an officer and family.
- Cowardice is a vice at this moment.
- But recklessness must be avoided, hence I will ensure that a security cover is provided to my family.

## 3) VARIOUS DIMENSIONS OF THE CRISIS

- POLITICAL DIMENSION :- Corruption is rampant. Corrupt politicians are hands in glove with illegal miners.
- SOCIAL DIMENSION :- Public wants to get rid of mining mafia and associated crimes like kidnapping, murders but fears.
- ECONOMIC DIMENSION :- State is deprived of revenue due to illegal mining.
- ENVIRONMENTAL LOSS → soil erosion, air pollution due to cutting of stones.

MEASURES TO DEAL WITH CRISIS

MEASURE

JUSTIFICATION

→ Tap the phones who threaten the junior officers in task force

To trace the illegal stone miners

→ Provide security cover to my family

For self-preservation

→ Write a letter to Central Government about the crime and seek help of investigative agencies like CBI, ED, ~~to~~ <sup>NIA</sup>

To nab the organized crime syndicate

→ Send a report prepared by taskforce to Centre

to substantiate my letter

→ Expose the politicians and government officials involved, first to Lokpal, then to media

Shows ~~To~~ <sup>Courage</sup> to speak against corruption

This should ensure the end of illegal mining in Asanpur.

**Feedback**

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total



**Q.9)** Under the Mid- Day Meal (MDM) scheme, children are served cooked food in their school. It has been revolutionary in not only improving the nutritional status of children but also increasing the retention ratio in schools. However, the quality of food has been a cause of concern.

In one of the unfortunate incidents, two students lost their lives and over thirty children fell ill after eating the MDM in their school. The district administration was quick in its action and fired the cook (bhojan-mata) of the concerned school. The bhojan-mata, who belongs to a backward caste, is the sole breadwinner in her family after her husband passed away. In an TV interview related to the incident, Bhojan-mata claimed that she is being made a scapegoat and being targeted only because she belongs to a backward caste. This created a political storm in the state. Opposition parties picked up the issue of social discrimination and started state-wide protest demanding justice for the bhojan-mata. The protest found resonance with masses and the ruling party was severely criticized.

To win back the confidence of the public, the government has constituted a commission to investigate the matter in an impartial manner. You are a joint secretary level officer and have been appointed as a member of the commission. During the investigation, you found that bhojan-mata was indeed not at fault. It was the contractor who was supplying poor quality raw materials to the school that caused the food poisoning in children. You also found that the food contractor was the brother of a powerful cabinet minister. You suspect that the district administration was hand-in-glove with the contractor and they connived to implicate bhojan-mata and exonerate the contractor.

You brought these findings before the head of the commission. To your surprise, the head of the commission informs you that he was already aware of these facts. He informs you that the minister has asked him to make a report that vindicates the bhojan-mata and reinstates her in order to subdue the opposition led agitations. He asks you to find someone else who can be blamed to ensure that the government is able to save its face as declaring the brother of a sitting cabinet minister responsible would push the government further in trouble. He also tells you that helping the ruling dispensation would ultimately help you, subtly giving hints of getting a 'plum posting' and also warns you that going against the wish of the minister can attract the wrath of the minister that can be disastrous for your career.

- 1) What are the various ethical dilemmas that you face in this situation?
- 2) What are the different courses of action that you can take? Identify the most suitable course of action and justify your choice.

(20 marks, 250 words)

मिड डे मील (MDM) योजना के तहत बच्चों को उनके स्कूल में पका हुआ खाना परोसा जाता है। यह न केवल बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने में बल्कि स्कूलों में प्रतिधारण अनुपात को बढ़ाने में भी क्रांतिकारी रहा है। हालांकि, भोजन की गुणवत्ता चिंता का विषय रही है।

एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, उनके स्कूल में एमडीएम खाने के बाद दो छात्रों की जान चली गई और तीस से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई में तत्परता दिखाते हुए संबंधित स्कूल के रसोइया (भोजन-माता) को निकाल दिया। भोजन-माता, जो एक पिछड़ी जाति से है, अपने पति के निधन के बाद अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाली है। घटना से संबंधित एक टीवी साक्षात्कार में, भोजन-माता ने दावा किया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह एक पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हैं। इससे राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने सामाजिक भेदभाव का मुद्दा उठाया और भोजन-माता के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया। विरोध को जनता के साथ प्रतिध्वनि मिली और सत्ताधारी दल की कड़ी आलोचना की गई।


जनता का विश्वास फिर से जीतने के लिए सरकार ने निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। आप संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं और आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जांच के दौरान, आपने पाया कि भोजन-माता वास्तव में गलत नहीं थी। यह ठेकेदार ही था जो स्कूल को घटिया किस्म का कच्चा माल सप्लाई कर रहा था जिससे बच्चों में फूड प्वाइजनिंग हुई। आपने यह भी पाया कि खाद्य ठेकेदार एक शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री का भाई था। आपको संदेह है कि जिला प्रशासन की ठेकेदार के साथ मिलीभगत थी और उन्होंने भोज-माता को फंसाने और ठेकेदार को दोषमुक्त करने के लिए साठ-गांठ की।

आप इन निष्कर्षों को आयोग के प्रमुख के सामने लाते हैं। आपके आश्चर्य के लिए, आयोग के प्रमुख ने आपको सूचित किया कि वह पहले से ही इन तथ्यों से अवगत थे। वे आपको सूचित करते हैं कि मंत्री ने उसे एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है जो भोजन-माता को सही ठहराती है और विपक्ष के नेतृत्व वाले आंदोलन को दबाने के लिए उसे बहाल करती है। वह आपसे किसी और को खोजने के लिए कहता है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है कि सरकार अपना चेहरा बचाने में सक्षम है क्योंकि एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री के भाई को जिम्मेदार घोषित करने से सरकार को और परेशानी होगी। वह आपको यह भी बताता है कि सत्तारूढ़ सरकार की मदद करने से अंततः आपको मदद मिलेगी, सूक्ष्म रूप से 'प्लम पोस्टिंग' प्राप्त करने के संकेत देते हुए और आपको यह भी चेतावनी देते हैं कि मंत्री की इच्छा के विरुद्ध जाने से मंत्री क्रोधित हो सकते हैं, जो आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकता है।

- 1) इस स्थिति में आप किन विभिन्न नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं?
- 2) कार्रवाई के विभिन्न कदम क्या हैं जो आप ले सकते हैं? कार्रवाई के सबसे उपयुक्त कदम की पहचान करें और अपनी पसंद का औचित्य साबित करें।

(20 अंक, 250 शब्द)

This case is about linkages of politics and caste system with mid-day meal scheme.





## ETHICAL DILEMMAS

- Private interest vs public interest  
 Plum posting assurance interferes with cheating with public through non-disclosure of facts about the poor quality of food
- Blaming an innocent person for private interest and to avoid wrath of Minister
- Honesty, integrity vs Saving the face of government
- Concealment of mistakes of contractor vs Justice to children who lost their lives due to food poisoning.
- Ignoring vs investigating the connivance of district administration with contractor, who is the brother of a Cabinet Minister

## DIFFERENT COURSES OF ACTION AVAILABLE

### ① OBEY THE ORDERS OF MINISTER AND HEAD OF COMMISSION "FULLY"

#### PROS

- Bhojan Mata vindicated and reinstated
- Opposition satisfied
- Assured plum posting
- Wrath avoided

#### CONS

- ~~Not~~ Injustice to children who died
- Innocent person blamed for ~~and~~ incident
- Truth of contractor is concealed.

### ② REFUSE TO OBEY

#### PROS

- Justice to children who lost their lives
- Truth revealed to media and newspapers

#### CONS

- Insubordination
- Wrath of Minister
- Transfers

## MOST SUITABLE COURSE OF ACTION :-

- I will reason with the Head of Commission that we must ever be on the side of justice.
  - We need to bring out the true facts to the public Instead of keeping them in dark.
  - Honesty, integrity will set a precedent for politicians and ministers
  - We must obey the Constitution and not the politicians.
  - Hiding the truth will set a slippery slope and will perpetuate corruption in district administration and contractors.
  - We must recommend to reinstate Bhojan Mata and ask the district administration to employ another contractor in a transparent manner.
- Only this can ensure transparency in midday meal system and save our children from politics of profits and corruption.

### Feedback

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

**Q.10)** Rashmi is a trained nurse and has an experience of over 20 years. She joined as a contractual nurse in a government hospital during the second wave of Covid-19. At the peak of the second wave of Covid, the health system of the country crumbled under the large number of infections. There was a severe shortage of not only items like medicine, oxygen cylinders etc but also of trained staff. To address the bed shortage, many temporary covid camps were established and to cope up with the dearth of trained staff, the government started hiring on contractual basis. Many nurses, computer operators, sweepers and others in support staff were temporarily hired for the covid period in accordance with outsourcing policy for emergency services at government hospitals. Due to their immense contribution in fight against the pandemic, they were recognized as 'corona warriors'. During their hiring, a verbal promise was made to them that, 'corona warriors' would be given preference in other government hirings. Rashmi signed a contract stating the term of her employment as three months, which was subsequently extended for three more months and so on.

After a year, as the number of covid infections have declined, the government has closed many of the temporary camps. Vaccination drive has also shown a decelerating trend as the majority of the population has been inoculated with at least one dose. This has reduced the requirement of nurses, computer operators and other supporting staff. Rashmi was served a 15 day notice and her contractual employment was terminated. Government has cited that since covid wave has subsided, contractual human resource would be laid-off and the money saved would be used for augmenting health infrastructure in the country.

Rashmi recalls her ordeal while taking care of patients during the second wave of Covid-19. She did continuous night shifts which usually stretched to 12-13 hours. Wearing PPE and 3 layers of masks for the entire period of duty made simple tasks like drinking water or using the washroom very difficult. Dealing with patients, some angry while others grieving, was an emotional drain. Rashmi also played a very important role in the vaccination drive, sometimes vaccinating more than 400 people per day. Many corona warriors contracted disease and died while doing their duty. Corona warriors have put their life on the line to save the country from the pandemic. But after termination of the contract, Rashmi feels that the government has acted with a 'use and throw' attitude.

Rashmi and other corona warriors have started protesting near the health ministry, demanding permanent government employment. On the basis of this case, answer the following questions:

- 1) What are the various ethical issues involved in this case?
- 2) Do you think Rashmi is justified in demanding a permanent government job?
- 3) Do you think the government is justified in terminating the contracts of corona warriors?
- 4) Consider yourself in the position of Health secretary in the concerned state. What would you do to address the issue at hand?

(20 marks, 250 words)

रश्मि एक प्रशिक्षित नर्स हैं और उन्हें 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान एक सरकारी अस्पताल में संविदा नर्स के रूप में शामिल हुईं। कोविड की दूसरी लहर के चरम पर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी संख्या में संक्रमणों के कारण चरमरा गई। न केवल दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि जैसी वस्तुओं की बल्कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी भारी कमी हुई। बेड की कमी को दूर करने के लिए, कई अस्थायी कोविड शिविर स्थापित किए गए और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए, सरकार ने अनुबंध के आधार पर भर्ती करना शुरू कर दिया। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग नीति के अनुसार कई नर्सों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, सफाई कर्मचारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों को अस्थायी रूप से कोविड अवधि के लिए काम पर रखा गया था। महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनके अपार योगदान के कारण, उन्हें 'कोरोना योद्धा' के रूप में पहचाना गया। उनकी भर्ती के दौरान उनसे मौखिक

वादा किया गया था कि अन्य सरकारी भर्तियों में 'कोरोना योद्धाओं' को वरीयता दी जाएगी। रश्मि ने अपने रोजगार की अवधि को तीन महीने बताते हुए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसे बाद में तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया।

एक साल बाद, चूंकि कोविड संक्रमणों की संख्या में कमी आई, सरकार ने कई अस्थायी शिविरों को बंद कर दिया। टीकाकरण अभियान में भी गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी क्योंकि अधिकांश आबादी को कम से कम एक खुराक के साथ टीका लगाया गया। इससे नर्सों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और अन्य सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो गई है। रश्मि को 15 दिन का नोटिस दिया गया और उनका संविदात्मक रोजगार समाप्त कर दिया गया। सरकार ने हवाला दिया है कि चूंकि कोविड की लहर कम हो गई है, अनुबंधित मानव संसाधन को बंद कर दिया जाएगा और बचाए गए धन का उपयोग देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

रश्मि ने कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान मरीजों की देखभाल करते हुए अपनी पीड़ा को याद किया। वह लगातार रात की पाली करती थी जो आमतौर पर 12-13 घंटे तक चलती थी। ड्यूटी की पूरी अवधि के लिए पीपीई और मास्क की 3 परतों को पहनने से पानी पीने या वॉशरूम का उपयोग करने जैसे सरल कार्य बहुत कठिन हो गए थे। मरीजों के साथ व्यवहार करना, कुछ नाराज तो कुछ दुखी, एक भावनात्मक पीड़ा थी। रश्मि ने टीकाकरण अभियान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कभी-कभी प्रति दिन 400 से अधिक लोगों को टीका लगाया। कई कोरोना योद्धाओं को बीमारी का संक्रमण हुआ और अपनी ड्यूटी करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। देश को महामारी से बचाने के लिए कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रश्मि को लगता है कि सरकार ने 'यूज एंड थ्रो' रवैये के साथ काम किया है।

स्थायी सरकारी नौकरी की मांग को लेकर रश्मि समेत अन्य कोरोना योद्धाओं ने स्वास्थ्य मंत्रालय के पास धरना शुरू कर दिया है। इस मामले के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- 1) इस मामले में शामिल विभिन्न नैतिक मुद्दे क्या हैं?
- 2) क्या आपको लगता है कि रश्मि का स्थायी सरकारी नौकरी की मांग करना जायज है?
- 3) क्या आपको लगता है कि सरकार का कोरोना योद्धाओं के ठेके खत्म करना जायज है?
- 4) अपने आप को संबंधित राज्य में स्वास्थ्य सचिव के पद पर विचार करें। मौजूदा मुद्दे को हल करने के लिए आप क्या करेंगे?

The case is about regularisation of (20 अंक, 250 शब्द)  
employment of doctors who came forward  
to serve the country during corona  
pandemic.

## 1) ETHICAL ISSUES INVOLVED:-

- Compassion towards doctors vs  
Honouring the contract

→ Following the rules of the contract,  
the doctor was hired only for 3 months  
but ~~she~~ she should be treated  
with empathy and compassion as  
she served nation in difficult times

• Not Laying off the doctor vs Augmenting infrastructure

→ If the doctor is not laid off, there wouldn't be enough resources for augmenting infrastructure.


• Honouring verbal promise of giving preference in govt. hirings vs Terminating the contract

2) Rashmi is not justified in demanding a permanent government job as:

→ According to rules of Contract, she was hired only for 3 months, with subsequent extensions subject to approval of government.

→ However, since she supported Covid-19 efforts of government under difficult circumstances, hence she expects a permanent job from govt. as a reward.

3) GOVT'S ACTION



4) As, Health Secretary, I would take following steps:

→ Calm the protestors

→ Ensure them a regular permanent job provided they clear an Entrance test

→ This test will be specially hold for nurses and doctors who Survived during Covid.

→ On scoring a minimum of 40% marks in the test, I shall grant them regular jobs in hospitals with vacancies.

→ This will ensure justice to nurses and corona warriors without compromising on the competence required for serving in the medical profession.

**Feedback**

(For OFFICE use only)

Structure/ Presentation
Question Interpretation
Content
Value Addition
Total





**Q.11)** Abha is currently working as the DM of a district. One day, she went to a village for inspecting the progress of a certain village development project. Abha was not satisfied with the pace of the work and wanted to talk with the Sarpanch of the village about the same. Abha went to the panchayat office where she found the Sarpanch standing just outside the office. The Sarpanch greeted Abha and offered her a seat. Abha sat down and started discussing the matter with the Sarpanch. She noticed that Sarpanch was still standing. She thought that Sarpanch was not sitting because of hesitation or out of respect for the officer. She requested him to take a seat but he reluctantly sat on a wooden stool. Abha jokingly asked him if he liked the stool so much that he chose it instead of a chair, to which the Sarpanch replied that he was not allowed to sit on a chair as he belonged to a Dalit community. Abha was taken aback by this response.

Abha enquired further about the issue. The sarpanch explained that since the Sarpanch position was reserved for SC community, he won the election. But despite being the official head of the panchayat, he did not have any power. He was neither allowed to enter the panchayat office nor was given access to official documents. A separate water pot was kept for him outside the office and he was not allowed to use the common water pot. He worked as a rubber stamp who merely signed the given document. He went on to tell Abha that last year he was not even allowed to hoist the national flag during the Independence Day celebration. Abha was shocked about hearing the kind of discrimination that the Sarpanch faced. On the basis of this case study answer the following questions:

- 1) Why do caste-based discriminations still persist even after 75 years of independence?
- 2) Examine the various ethical issues involved in this case.
- 3) Identify various stakeholders and their responsibilities for creating an egalitarian society.


(20 marks, 250 words)


आभा वर्तमान में एक जिले की डीएम के पद पर कार्यरत हैं। एक दिन, वह एक निश्चित ग्राम विकास परियोजना की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक गाँव गईं। आभा काम की गति से संतुष्ट नहीं थी और उसी के बारे में गाँव के सरपंच से बात करना चाहती थी। आभा पंचायत कार्यालय गई जहाँ उसने सरपंच को कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा पाया। सरपंच ने आभा का अभिवादन किया और उसे बैठने की पेशकश की। आभा बैठ गई और सरपंच से बात करने लगी। उसने देखा कि सरपंच अभी भी खड़ा था। उसने सोचा कि सरपंच शिझक के कारण या अधिकारी के सम्मान के कारण नहीं बैठा है। उसने उससे बैठने का अनुरोध किया लेकिन वह अनिच्छा से एक लकड़ी के स्टूल पर बैठ गया। आभा ने मजाक में उनसे पूछा कि क्या उन्हें स्टूल इतना पसंद है कि उन्होंने कुर्सी के बजाय इसे चुना, जिस पर सरपंच ने जवाब दिया कि उसे कुर्सी पर बैठने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह दलित समुदाय से है। इस प्रतिक्रिया से आभा अवाक रह गईं।


आभा ने इस बारे में और पूछताछ की। सरपंच ने बताया कि चूंकि सरपंच का पद अनुसूचित जाति के समुदाय के लिए आरक्षित था, इसलिए उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन पंचायत का आधिकारिक मुखिया होने के बावजूद उनके पास कोई अधिकार नहीं था। उन्हें न तो पंचायत कार्यालय में प्रवेश करने दिया गया और न ही आधिकारिक दस्तावेजों तक पहुंच दी गई। कार्यालय के बाहर उनके लिए अलग पानी का बर्तन रखा गया था और उन्हें साझे पानी के बर्तन का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं थी। उन्होंने रबर स्टैप के रूप में काम किया, जिसके तहत केवल दिए गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आभा से कहा कि पिछले साल उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। सरपंच के साथ जिस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा, उसे सुनकर आभा हैरान रह गईं। इस केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएरू

- 1) आजादी के 75 साल बाद भी जाति आधारित भेदभाव अभी भी क्यों कायम है?
- 2) इस मामले में शामिल विभिन्न नैतिक मुद्दों का परीक्षण करें।
- 3) समतामूलक समाज के निर्माण के लिए विभिन्न हितधारकों और उनकी जिम्मेदारियों की पहचान करें।

(20 अंक, 250 शब्द)







**Feedback**

(For OFFICE use only)

Structure/  
Presentation

Question  
Interpretation

Content

Value  
Addition

Total

Q.12) Jayant is a hard-working and dedicated IAS officer. He is currently posted in a remote district in North-East India. Jayant is married to Sarita who used to work as a software engineer before her marriage. Sarita is a well-educated and ambitious woman who wants to be known by her name and not only as the wife of IAS officer Jayant. Sarita wants to restart her career and has been searching for a suitable job for some time. She has found a good job in an MNC that pays well, but she will have to move to Bangalore for it. Sarita wants to take up this opportunity but Jayant's mother does not want Sarita to move to Bangalore. Jayant also wants Sarita to stay with him so that they can have kids and start their family. Sarita proposes that Jayant move with him to Bangalore as she will get a salary that is substantially more than Jayant's. Jayant and his mother found this proposal offending. Further, Jayant does not want to leave the job that he has dreamed of since his childhood and for which he has toiled hard. The entire issue has become a reason for daily fights between Sarita and Jayant, and has taken a toll on their married life.

The issues in personal life of Jayant have crept into his professional life as well. He is not able to concentrate on his work which has resulted in his poor performance. Just a few days back, Jayant made a blunder and was scolded by his senior for being absent-minded in his work. His behaviour in office has also changed. Now Jayant gets easily irritated and often talks rudely with the staff in the office. This is negatively impacting the motivation level of his subordinates. Jayant is aware of his degrading performance and he thinks that he is failing both in his personal and professional life.

You are a mutual friend of Jayant and Sarita. One day you received a call from a distressed Jayant and he asks you for your advice on this issue.

- 1) Help Jayant identify different options available with him to cope with the crisis? Discuss the merits and demerits of each of these options.
- 2) As a mutual friend, what advice would you give to Jayant and Sarita in this case so that they can return back to being a happy couple?
- 3) How can Jayant develop the qualities that are required to handle such crisis situations in life?

(20 marks, 250 words)

जयंत एक मेहनती और समर्पित आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में उत्तर-पूर्व भारत के एक दूरस्थ जिले में तैनात है। जयंत की शादी सरिता से हुई है जो शादी से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती थी। सरिता एक पढ़ी-लिखी और महत्वाकांक्षी महिला है जो अपने नाम से पहचानी जाना चाहती है, न कि केवल आईएएस अधिकारी जयंत की पत्नी के रूप में। सरिता अपने करियर को फिर से शुरू करना चाहती है और कुछ समय से एक उपयुक्त नौकरी की तलाश कर रही है। उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है जो अच्छी तरह से भुगतान करती है, लेकिन उसे इसके लिए बेंगलूर जाना होगा। सरिता इस मौके को लेना चाहती है लेकिन जयंत की मां नहीं चाहती कि सरिता बेंगलूर चली जाए। जयंत भी चाहता है कि सरिता उसके साथ रहे ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें और अपना परिवार शुरू कर सकें। सरिता का प्रस्ताव है कि जयंत उसके साथ बेंगलूर चले क्योंकि उसे जयंत की तुलना में काफी अधिक वेतन मिलेगा। जयंत और उनकी मां को यह प्रस्ताव आपत्तिजनक लगा। इसके अलावा, जयंत उस नौकरी को नहीं छोड़ना चाहता जिसका उसने बचपन से सपना देखा है और जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है। यह पूरा मामला सरिता और जयंत के बीच आए दिन झगड़ों का कारण बन गया है और उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी असर पड़ा है।

जयंत के निजी जीवन के मुद्दे उनके पेशेवर जीवन में भी आ गए हैं। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उसका प्रदर्शन खराब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले, जयंत ने एक बड़ी गलती की और काम में अनुपस्थित रहने के कारण उसके सीनियर ने उसे डांटा। ऑफिस में उनका व्यवहार भी बदल गया है। अब जयंत आसानी से चिढ़ जाता है और अक्सर ऑफिस में स्टाफ के साथ बदतमीजी से बात

करता है। यह उसके अधीनस्थों के प्रेरणा स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। जयंत अपने अपमानजनक प्रदर्शन से वाकिफ है और उसे लगता है कि वह अपने निजी और पेशेवर जीवन दोनों में असफल हो रहा है।

आप जयंत और सरिता के परस्पर मित्र हैं। एक दिन आपके पास एक व्यक्ति जयंत का फोन आया और उन्होंने आपसे इस मुद्दे पर आपकी सलाह मांगी।


1) संकट से निपटने के लिए जयंत के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान करने में मदद करें? इनमें से प्रत्येक विकल्प के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।


2) एक पारस्परिक मित्र के रूप में, आप इस मामले में जयंत और सरिता को क्या सलाह देंगे ताकि वे एक खुशहाल दंपति के रूप में वापस आ सकें?

3) जयंत जीवन में ऐसी संकट स्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक गुणों को कैसे विकसित कर सकता है?  
(20 अंक, 250 शब्द)









**Feedback**

(For OFFICE use only)

<b>Structure/ Presentation</b>
<b>Question Interpretation</b>
<b>Content</b>
<b>Value Addition</b>
<b>Total</b>

**Mentor Feedback Questions**

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....

**Test Goal**

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

**Outcomes**

- .....
- .....
- .....
- .....

**Marking Scheme**

Mark	Good	Average	Below average
10 Marker	3.75 – 5.0	3.0 – 3.5	< 3.0
15 Marker	5.75 – 7.0	4.0 – 5.5	< 4.0
✓✓	Key / Relevant Point		
✗	Vague / Irrelevant		


\* Subject to change without prior notice.

## Availing Mentorship - Now made easy & seamless via [mentorship.forumias.com](https://mentorship.forumias.com)

Dear Students,

You can now avail Mentorship in both online & offline mode seamlessly. All you need to do is login to below URL and pick up a date and time and your Mentorship is scheduled at the designated time.

Visit the URL <https://mentorship.forumias.com> or Scan the QR code



**When must you seek mentorship?** When you are unable to fully comprehend the directions given by the evaluator in the MGP copy. A Mentor will help you understand the nuances of your evaluated MGP copy. He / She will also be able to make suggestions, if needed, on improvements that you could make.

If we are already doing well, a reinforcement from the Mentor will further assist us in following the right path. A Mentor may also be able to give valuable inputs with respect to time management, presentation, structure etc. He may recommend you clearly to work on content or may suggest you to take courses / read books in case he feels you lack content that may be quickly improved with a course at ForumIAS or elsewhere, or some study material.

To download topper's copies, visit the link <https://blog.forumias.com/testimonials>

### Topper's Testimonials and Test Copies

#### CSE 2021 Topper's Testimonials and Test Copies

- CSE Rank 1, Shruti Sharma, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 5, Utkarsh Dawvedi, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 8, Ishita Rathi, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 9, Preetam Kumar, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 12, Yasharth Shekhar, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 14, Abhinav J Jain, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 17, Mehak Jain, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 19, Diksha Joshi, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 20, Arpit Chauhan, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 23, Ashish, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 24, Pusapati Sahitya, Download MGP Copies [Click Here](#)
- CSE Rank 25, Shruti Rajlaxmi, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 26, Utsav Anand, Download MGP Copies. [Click Here](#)
- CSE Rank 28, Mourya Bharadwaj Mantri, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 30, Naman Goyal, Download MGP Copies + Testimonial [Click Here](#)
- CSE Rank 33, Jaspinder Singh, Download MGP Copies. [Click Here](#)
- CSE Rank 37, V Sanjana Simha, Download MGP Copies. [Click Here](#)
- CSE Rank 39, Vishal Dhakad, Download MGP Copies. [Click Here](#)
- CSE Rank 40, Kushal Jain, Download MGP Copies. [Click Here](#)